

बिहार में पेपर लीक होने से रोकने के लिये वधियक पारति हुआ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार वधानसभा ने **बिहार लोक परीक्षा (PE) (अनुचति साधनों की रोकथाम) वधियक, 2024** पारति कथिा जसिका उद्देश्य राज्य में **सरकारी भरती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य कदाचारों पर अंकुश लगाना है**।

मुख्य बदि

- इस कानून के तहत सभी अपराध **संज्ञेय** और **गैर-जमानती** होंगे।
- इसमें पेपर लीक, **फर्ज़ी वेबसाइट** का इस्तेमाल और सेवा प्रदाताओं के साथ मलीभगत जैसे अनुचति साधनों से जुड़े वभिनिन अपराधों को परभाषति कथिा गया है।
- वधियक में **तीन से पाँच वर्ष का कारावास** और **10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान** है।
- अगर कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या नजिी एजेंसी, गलत काम करता है, तो उस पर **एक करोड़ रुपए का जुर्माना और चार वर्ष के लिये उसकी सेवाएँ समाप्त** कर दी जाएगी।

लोक परीक्षा (अनुचति साधनों की रोकथाम) वधियक, 2024

- यह वधियक **केंद्र सरकार** द्वारा पारति कथिा गया था जसिका उद्देश्य सरकारी भरती परीक्षाओं में कदाचार की समस्या का समाधान करना था। यह **21 जून, 2024 को लागू हुआ**।
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
 - इसमें अनुचति साधनों से संबंधति वभिनिन अपराधों को परभाषति कथिा गया है, जैसे- पेपर लीक, **फर्ज़ी वेबसाइटों का उपयोग तथा सेवा प्रदाताओं के साथ मलीभगत**।
 - इसमें कठोर दंड का प्रावधान कथिा गया है, **जसिमें न्यूनतम 3-5 वर्ष का कारावास अवध और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना** शामिल है।
 - इसमें परीक्षा संचालन के लिये नयुक्त **सेवा प्रदाताओं** पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना तथा सार्वजनकि परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष का प्रतर्बिध लगाने का प्रावधान है।
 - यह अधनियिम **पुलसि उपाधीक्षक या सहायक पुलसि आयुक्त** के पद से नीचे के **पुलसि अधिकारियों** को अधनियिम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है।
 - इसमें **UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA** द्वारा आयोजति की जाने वाली केंद्र सरकार की भरती परीक्षाओं सहति वभिनिन प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होंगी।